WELCURE DRUGS & PHARMACEUTICALS LTD.

CIN: L24232DL1996PLC227773

Regd. Off.: Plot No. 55, Office No- 104 First Floor Vijay Block , Laxmi Nagar, East Delhi, Delhi-110092 Email: welcuredrugs227@gmail.com Website: www.welcuredrugs.com

Date-September 06, 2024

To,

The General Manager,

Corporate Relationship Department, BSE Limited, PhirozJeejeebhoy Tower, Dalal Street, Mumbai — 400001, Maharashtra, India

Reference: ISIN- INE331C01017; Scrip Code-524661; Symbol-WELCURE

<u>Subject: Newspaper Advertisement - Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,</u>

Dear Sir / Madam,

We wish to inform you that Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith Newspaper Publication of Notice of the 32nd Annual General Meeting of the Company to be held on Monday, September 30, 2024 through Physical Mode at 12:30 PM.

The same has been made available on the Company website at www.welcuredrugs.com.

You are requested to take the above on records.

Thanking you,

Yours truly,

For Welcure Drugs & Pharmaceuticals Ltd

Altaf Digitally signed by Altaf Hussain Shah Date: 2024.09.06 10:58:01 +05'30'

Altaf Hussain Shah Managing Director DIN: 10351528 **FINANCIAL EXPRESS**

Kantas Track Pack India Ltd.

REGD. OFFICE: - 133, IInd FLOOR, TILAK BAZAR, DELHI-110006 CIN No.: U74950DL 1990PLC040856 Email: info@ktpil.com, Mob: 9717921060

NOTICE

Notice is hereby given that 34th Annual General Meeting of the members of Kantas Track Pack India Limited ("the Company) will be held on Monday, 30th September, 2024 at 11:00 A.M. at Solitaire Hotel, A- 134-135, Shakarpur, Vikas Marg, Opp. Metro Pillar No. 37, Delhi-110092 to transact the business as per Notice dated 04/09/2024.

Notice is also given pursuant to the Companies Act, 2013 and applicable rules there under, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed for 10 days from 21/09/2024 to 30/09/2024 (both days inclusive).

> BY THE ORDER OF THE BOARD Sd/

> > Director

New Delhi

September 5, 2024

PLACE : DELHI Arun Agarwal DATED: 04/09/2024

MANIBHAVNAM HOME FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED

POSSESSION NOTICE (Appendix IV) Rule 8(3)

Whereas the Authorized officer of ManiBhavnam Home Finance India Pvt. Ltd., a (hereinafter referred to as "MBHF"). MBHF, which has duly been Authorised by the Central Government, vide a notification dated

17.06.2021, to be treated as a Financial Institution, for the purposes of the "The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, having its registered office at:- 2nd Floor, N-2, South Extension Part-1, New Delhi- 110049, under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 OF 2002) (hereinafter referred to as "Act") and in exercise of the powers conferred under Section 13(2) of the Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 issued a Demand Notice to the following borrowers and co-borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower/Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on as per under mentioned Date. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of "MBHF" and interest other charges thereon. The attention of the Borrower is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset.

Name & Address of Borrower/Co-Borrower: 1. SONA DEVI W/O RAMJI LAL MEENA, 2. GIRRAJ PRASAD MEENA S/O RAMII LAL MEENA, 3. KHELANTA DEVI W/O GIRRAI PRASAD MEENA, 4. LAL RAM MEENA S/O RAMJILAL, 5. RAMJI LAL MEENA S/O GAINDI LAL MEENA, ALL RESIDING AT - KH. NO. 04, DHARAMPURA KI DHANI, JAIPUR MADANPURA, HANSMAHAL BASSI, JAIPUR, RAJASTHAN-303305

Demand Notice Dated: 16-Oct-2023, Date of Possession: 03.09.2024 Amount of Demand Notice: Rs. 6.70.913.64/- as on 03-0ct-2023

Details of Property: ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PART 1/15 OF THE TOTAL RESIDENTIAL PLOT IN ARAII KHASRA NO. 04, AREA 1.7703 OF ANCESTRAL LAND SITUATED IN BOSSKHOH, TEHSIL BASSI, DISTRICT liaipur raiasthan whose name is 82 feet from east to west and 32.6 feet from north to SOUTH, TOTAL AREA 297.02 SOUARE YARDS AND BOUNDED AS: EAST: 3 FEET GALL WEST: OWN LAND ALONGWITH COMMON WAY 10 FEET. NORTH: BADRIMEENA'S HOUSE. SOUTH: LAND OF BADRI AND HARILAL.

Place: Jaipur, Date: 03.09.2024 Authorised Officer, ManiBhavnam Home Finance India Pvt. Ltd.

ABHINAV LEASING AND FINANCE LIMITED (CIN. L65100DL1984PLC018748)

Regd. Off: S-524, IST FLOOR, VIKAS MARG, SHAKARPUR-DELHI-110092

NOTICE

The 40" (fortieth) Annual General Meeting ("AGM") of the members of Abhinav Leasing And Finance Limited will be held on Monday, 30th September, 2024 at 09:30 A.M. at, "S-524, 1" Floor, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092 to transact the business mentioned in the notice convening the said meeting which is being sent to the members whose name is appearing in registers on Friday 30" August, 2024. along with the Annual Report for the year ended 31st March, 2024.

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 (Act) the register of members and the share transfer books of the company will remain closed from Monday 23rd September, 2024 to Monday 30th September, 2024 (both the days inclusive) Pursuant to the provisions of section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Standard 2 of the Secretarial Standard on General Meeting, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote by electronic means ("remote e-voting) as provided by CDSL on all resolutions as set out in the notice of AGM.

- Date and time of commencement of remote e-voting: Friday, 27st September, 2024(9:00 A.M.)
- Date and time of end of remote e-voting: Sunday, 29th September, 2024 (5:00 P.M.).
- Cut- off date for determining the eligibility to vote: Friday, 20th
- Facility for voting through ballot paper shall also be made available at
- the AGM. Members attending the meeting. Members who cast their vote by remote e-voting may also attend the
- meeting, but shall not be able to exercise their right at the meeting. The Notice of AGM is available on the Company website-
- www.abhinavleasefinltd.in and on the website of CDSL www.evotingindia.com In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may
- refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com , under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

For Abhinav Leasing and Finance Limited

Mamta Agarwal Date: 05.09.2024 Managing Director Place : Delhi

TRADEWELL HOLDINGS LIMITED

(Formerly known as "BRAND REALTY SERVICES LIMITED")

CIN: L74110DL1995PLC064237 Registered Office: S-8 & S-2, DDA SHOPPING COMPLEX, OPP. POCKET-I, MAYUR VIHAR-I, DELHI -110091

Corporate Office: Ground Floor Plot No-15 A. Tradex Tower, Sector-125.

Noida-201301, UTTAR PRADESH

Tel.: 011-22755819, Email Id: info@brandrealty.in, Website: https://www.brandrealty.in

Notice is hereby given that the 30th (Thirtieth) Annual General Meeting ("AGM") of the members of TRADEWELL HOLDINGS LIMITED (formerly "Brand Realty Services Limited") ("the Company") will be held on Monday, the 30th day o September, 2024 at 12:30 P.M (IST) at the Registered Office of the Company at S-8 & S-2,DDA Shopping Complex, Opp. Pocket-I, Mayur Vihar-I, Delhi- 110091 to transact the businesses mentioned in the Notice of said AGM

The notice alongwith annual report has been sent to those members whose email

IDs are registered with the RTA/ Company/Depositories on and the same is also available on the website of the Company at www.brandrealty.in Further, Pursuant to Section 91 of the Companies Act. 2013 the register of

members and transfer book will remain closed from Tuesday, September 24th 2024 to Monday, September 30th, 2024 (both days inclusive) for the purpose In pursuance of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and

Regulation of the SEBI (LODR), Regulation 2015, the Company is providing e-voting facility to its Members as provided by NSDL on all resolutions as set out in the Notice of 30th AGM. Members of the Company may transact the business through voting by electronic means 1. The remote e-voting facility commence at Saturday 27.09.2024 (9:00 A.M.) and ends on Sunday 29.09.2024 (5:00 P.M.) for all shareholders, whether holding

displayed by NSDL for Voting. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time 2. The cut-off date to determine eligibility to cast votes by electronic Voting i Monday, 23rd September, 2024.

shares in physical form or in dematerialized form. The e-voting module shall be

- 3. A person, who acquires shares and become shareholders of the company after dispatch of Notice and holding shares as of the cut-off date can do remote e-voting)by obtaining login-id and password by sending an e-mail to helpdesk.evoting@nsdlindia.com or on the link https://www.evoting.nsdl.com by mentioning their folio no./DP ID and Client ID No. However if such shareholder is already registered with NSDL for remote-voting then existing user id and password can be used for remote-voting.
- In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 or send a request to (Ms. Pallavi Mhatre - Senior Manager, NSDL) at evoting@nsdl.com. 5. Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right at the meeting
- A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not allowed vote again at the meeting.
- Notice of AGM is available on company's website www.brandrealty.in and on the website of NSDL www.evotingindia.com. 8. A person, whose name recorded in the register of members maintained by the
- depositories as on Monday, 23rd September, 2024, shall be entitled to vote. Mr. Parveen Kumar Rastogi, Practising Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer for overseeing/ conducting the remote e-voting and the voting process in a fair and transparent manner.

Place: Delhi

By order of the Board For Tradewell Holdings Limited Date: 5th September, 2024 **Uma Kumari** (Company Secretary & Compliance Officer)

LANDMARK PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED Registered Office: 11th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi-110001

E-mail: info@landmarkproperty.in Website: www.landmarkproperty.in CIN: L13100DL1976PLC188942 Phone No. 011- 43621200 Fax No.: 011-41501333

NOTICE is hereby given that the 48th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 30, 2024, at 11,30 A.M. IST through Video Conference ("VC")

Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015 and circulars issued thereunder, to transact the Businesses as set out in the Notice

- In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of AGM and Annua Report for Financial Year ended March 31, 2024 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s).
- The Company is pleased to provide its Members the facility to cast their vote by electronic means on all resolutions set forth in the Notice. The details relating to e-voting, are as under

The Businesses as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by

- The remote e-voting shall commence on September 27, 2024 at 9:00 a.m.
- The remote e-voting shall end on September 29, 2024 at 5:00 p.m. 4. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after despatch of Notice of AGM and holding Shares as of the cut-off date, i.e., September 23, 2024 may obtain login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after
- the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution has been casted by a member, he shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for e-voting shall be made available at the AGM; c) a member who has casted his vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast his vote again; d) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail both the facilities of voting, i.e., either through remote e-voting or e-voting at the AGM.
- The Notice of AGM is available on the Company's website and also on the NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com.
- In case of queries, members may refer to the frequently asked questions (FAQs) for members and e-voting user manual for the members at the downloads section of https: /www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 or send a request at:

Closure of Register of Members

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share ransfer Books of the Company shall remain closed from September 24, 2024 to September 2024 (both days inclusive) at the time of 48th Annual General Meeting to be held as per schedule mentioned hereinabove.

> By Order of the Board Ankit Bhatia

Company Secretary

(An enterprise of THE HENDUSTHAN GROUP) Registered Office: Kanchenjunga, (7th Floor) 18, Barakhamba Road, New Delhi - 110001

E-mail: investors@hindusthan.co.in Website: www.hindusthanurban.com, Phone: +91-11-23310001-05

CIN: L31300DL1959PLC003141,

NOTICE OF THE 64" ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ('VC')/OTHER AUDIO VISUAL MEANS ('OAVM') AND E-VOTING INFORMATION

In compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with MCA Circular(s) dated April 8, 2020, April 13, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022. December 28, 2022 and September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEB Circular(s) dated May, 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 5, 2023 and October 7, 2023 ssued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') and all other applicable Circulars issued by MCA and/or SEBI, Notice is hereby given that the 64th Annual General Meeting (AGM) of the members of Hindusthan Urban Infrastructure Limited is scheduled to be held on Monday, 30" September, 2024 a 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the businesses as set forth in the notice convening the AGM

The Notice of the Annual General Meeting along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 have been sent only through electronic mode to those Members whose email IDs are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent ('RTA')/Depository participant ('DP'), in compliance with the above circulars. The emailing of the Notice has been completed on 5" September, 2024. The aforesaid documents are also available on the website of the Company at www.hindusthanurban.com, website o the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securitie: Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

The Company has provided the facility to its Members to cast their vote electronically, through remote e voting facility (prior to AGM) and e-Voting facility (during the AGM), on all the resolutions set forth in the AGM Notice to the Members. Members who have not registered their email IDs are requested to register/update the same with their respective DPs, in case of shares held in demat mode and with Skyline Financial Services Pvt. Ltd., RTA of the Company at compliances@skylinerta.com o nfo@skylinerta.com in case the shares are held in physical mode. The cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote e-voting and voting at the AGM is Monday, 23" September 2024. The remote e-voting period will commence on Friday, 27" September, 2024 at 9:00 A.M. (IST) and will end on Sunday, 29" September, 2024 at 5:00 P.M. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M. (IST) on Sunday, 29" September, 2024. A member may participate in the general neeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting

The instructions for manner of participation and voting for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode whose email IDs are already registered with the Company/RTA/DP and for those who have not registered their email IDs has also been provided in the Notice convening the AGM including other relevant details. The manner in which the persons who have acquired the shares and become members of the company after the dispatch of notice may obtain login ID and password has also been provided in the Notice convening the AGM.

in case of any grievances connected with the facility for voting through electronic means, please contact Skyline Financial Services Pvt. Ltd., RTA of the Company at compliances@skylinerta.com of nfo@skylinerta.com Contact No: 011 2681 2683 or National Securities Depository Limited (NSDL) by email to evoting@nsdl.co.in or at the contact details available on the website of the NSDL i.e. www.nsdl.co.in.

For Hindusthan Urban Infrastructure Limited

Date: 05.09.2024 Place: New Delhi

(M.L. Birmiwala) President-Finance & Secretary

GOURMET GATEWAY INDIA LIMITED (FORMERLY KNOWN AS INTELLIVATE CAPITAL VENTURES LIMITED) Registered Office: Village Dabodha, Khasra No 4/18,22,23,24,5 //11,6//2,3,4, Tehsil Farrukhnagar, Gurugram, Haryana, 122506 **CIN**: L27200HR1982PLC124461

Phone: +91-8750131314; E-mail: amfinecompliance@gmail.com, Website: www.gourmetgateway.co.in

INFORMATION REGARDING 41ST ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting ("AGM") of Gourmet Gateway India Limited (the "Company") will be held through Video Conferencing or Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") on Monday, 30th September, 2024 at 03:30 p.m. pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder read with General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, circular no 02/2021 dated 13th January, 2021, 02/2022 dated 05th May 2022, 10/2022 dated December 28, 2022 and latest being 09/2023 dated 25th September, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, circular no SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/ 62 dated 13th May, 2022, SEBI/HO/CRD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 and SEBI/HO/ CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 allowed the Companies to hold AGM through Video Conferencing or Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") without physical presence of the member at a common venue to transact the business set forth in the 41st AGM Notice. In view of the above and in compliance with the applicable provision of the Companies Act, 2013 and above mentioned circular, the 41st AGM of the Company will going to be conducted through VC/OAVM and physical attendance of Members to AGM venue is not required. The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM.

The Company is providing to its members a facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means ("E-voting") and the business set out in the Notice of AGM may be transacted through E-Voting. The Company has engaged CDSL to provide the facility of remote E-voting and facility of E-voting to the members participating in the AGM through VC/OAVM. The Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through CDSL e-Voting System. The process and manner of remote E-voting, attending the AGM through VC/ OAVM and E-voting during AGM, for members holding shares in demat form or physical form and for the members who have not registered their email address, has been provided in the Notice of AGM.

A member whose email address is not registered with the Company/ Depository Participant(s) and who wish to receive through email, the notice of AGM and Annual Report 2023-2024 and obtain User ID and password to participate in the AGM through VC/OAVM and vote through E-voting system in the AGM or through remote E-voting can get his/her/its email address registered by following the procedure mentioned below:

In case of Physical Holding: Please register/update the PAN and KYC details (including Email address and Bank Account's particulars) with the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. Purva Sharegistry (India) Pvt. Limited having office at No. 9, Shiv Shakti Industrial Estate, Ground Floor, J.R. Boricha Marg, Opp. Kasturba Hospital, Lower Parel, Mumbai -400011 at www.purvashare.com and purvashr@gmail.com. In prescribed Form ISR-1 duly filled and signed along with other relevant forms. Members may access the relevant Forms available on the website of the Company at www.gourmetgateway.co.in.

to register/ update their email addresses with the relevant Depository Participants with whom they maintain their demat accounts. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM

In case of Demat Holding: Members holding shares in dematerialized mode are requested

including instructions for joining the AGM and manner of casting vote through remote e-voting/ e-voting during the AGM. For further information, Members can write to the Company/RTA of the Company at www.gourmetgateway.co.in/www.purvashare.com.

> For Gourmet Gateway India Limited (Formerly Known as Intellivate Capital Ventures Limited)

> > Narender Kumar Sharma **Company Secretary**

| Place: Gurgaon, Haryana

Date: 05.09.2024

SVAM SOFTWARE LIMITED (CINL65100DL1992PLC047327)

Regd. Off: 224, G/F Swayam Sewa, Co-Operative Housing Society Ltd., Jhilmil Delhi - 110032

The 32" (Thirty second) Annual General Meeting ("AGM") of the

NOTICE

members of Svam Software Limited will be held on Monday 30" September, 2024 at 09.00 A.M. at, "S-524, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092, to transact the business mentioned in the notice convening the said meeting which is being sent to the members names in registers on Friday 30" August, 2024, along with the Annual Report for the year ended 31° March, 2024. Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 (Act) the register of

members and the share transfer books of the company will remain closed from Monday 23" September, 2024 to Monday 30" September, 2024 (both the days inclusive) Pursuant to the provisions of section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Standard 2 of the Secretarial Standard on General Meeting, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote by electronic means ("remote e-voting) as provided by CDSL on all resolutions as set out in the notice of AGM.

- Date and time of commencement of remote e-voting: Friday, 27th September, 2024 (9:00 A.M.)
- Date and time of end of remote e-voting: Sunday, 29th September,
- 2024 (5:00 P.M.). Cut- off date for determining the eligibility to vote: Friday, 20th
- September, 2024.
- Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM. Members attending the meeting.
- Members who cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting, but shall not be able to exercise their right at the meeting.
- The Notice of AGM is available on the Company websitewww.svamsoftwareltd.in and on the website of CDSL www.evotingindia.com
- In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com For Svam Software Limited

Manisha Agarwal

Place : Delhi

Date: 05.09.2024

Managing Director

S R G SECURITIES FINANCE LIMITED 322, S.M.LODHA COMPLEX, NEAR SHASTRI CIRCLE, UDAIPUR (RAJASTHAN)-313001 CIN: L67120RJ1995PLC009631; Website: www.srgfin.com

Email: srgsecurities@gmail.com, Ph No: 0294-2561882

NOTICE OF 29™ ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that 29" Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Monday 30" September, 2024 at 12:15 pm at the Registered office of the Company at 322 S.M. Lodha Complex Near Shastri Circle Udaipur Rajasthan 313001 ti transact the Business as set out in the notice of the 29° AGM which has been dispatched to

all the shareholders of the Company along with Annual Report 2023-24 on 05.09.2024 The Company is pleased to offer remote e-voting facility through National Securities Depository Limited (NSDL) to all the shareholders of the Company in respect of all the items to be transacted at 29th Annual General Meeting.

The Notice of 29" AGM along with instructions for e-voting and Annual Report are available on the following websites. Company's website: www.srgfin.com; BSE Limited: www.bseindia.com and NSDL: www.evoting.nsdl.com.

The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the rules are given

 A person whose name is recorded in the Register of Members/ beneficial owners or Monday, September 23, 2024 (cut-off date) shall be entitled to vote through remote e-voting

or through Ballot Paper at the AGM. Date and time of commencement of remote e-voting: 27-09-2024 at 09:00 am. Date and time of end remote of e-voting and the e-voting shall not be allowed beyond 29

 Any person who acquires shares of the Company and becomes member after the dispatch of the Notice of AGM and holds share on cut-off date, may obtain the User ID and password for e-voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in or srgsecurities@gmail.com

 Those shareholders, who do not opt to cast their vote through remote e-voting, may cast their vote through Ballot paper at the venue of the AGM. Shareholders who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM, may attend the AGM, however they are not entitled

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for members available at the downloads section of the website www.evoting.nsdl.com or can call on toll free no: 1800 1020 990/ 1800 224 430 o Contact NSDL at 022-2499454 or e-mail evoting@nsdl.co.in. For any queries/grievances, in relation to e-voting, Members may contact Ms. Priya Chaplot, Company Secretary Tel: 0294 2412609 and email srgsecurities@gmail.com at 322, S.M. Lodha Complex, Near Shastr Circle, Udaipur Rajasthan-313001.

Mr. Amit Jalan, Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the voting process in fair and transparent manner.

Members who have not registered their e-mail address, so far, are requested to register their

e-mail address with their Depository Participant/ RTA. Further Notice is hereby given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing obligations and Disclosures requirement) Regulations, 2015 that th Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday 23" September 2024 till Monday 30" September, 2024 (both days inclusive) as Annual Book Closure for the purpose of Annual General Meeting.

Date: 05.09.2024 Place: Udaipur

For S R G Securities Finance Limited

Priya Chaplot (Company Secretary) M No A48227

PRISM MEDICO AND PHARMACY LIMITED CIN: L24100HP2002PLC009299; Registered Office: Suketi Road, Kala Amb, Sirmaur, Himachal Pradesh-173030

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting (AGM) of the members of Prism Medico and Pharmacy Limited will be held on Monday, the 30th day of September, 2024 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means only, to transact the business as set out in the Notice of the AGM. The notice of the AGM will be sent through electronic mode only to those members whose e-mail ids are registered with the company, RTA and depositories. The requirement of sending physical copies of Notice of AGM has been dispensed vide MCA Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, May 5, 2022 and December 28, 2022 and SEBI Circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021. The Notice of AGM is available on the website of the company at www.prismmedico.in, websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and and website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Book Closure and Dividend: The Register of Members and the Share Transfer Books of the company will remain closed from Monday, September 23, 2024 to Monday, September 30, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Remote e-Voting: In compliance with Section 108 of the Companies Act. 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the company is providing facility of remote e-Voting before / during the AGM. The company has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means. E-Voting facility would be available from Friday, September 27, 2024 (9:00 A.M.IST) to Sunday, September 29, 2024 (5:00 P.M. IST) and shall be disabled by NSDL thereafter.

The voting rights of the members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the company as on Monday, September 23, 2024 ('cut-off date'). The facility of remote e-voting system shall also be made available during meeting and the members attending the meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right during the meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before / during the AGM. Members who have casted their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting electronically, but shall not be entitled to vote again. A non-individual shareholder or shareholder holding securities in physical mode, who acquires shares of the company and becomes a member of the company after the

dispatch of the notice and holds shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and Password for e-Voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if the member is already registered with NSDL for remote e-Voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote. Individual shareholders holding securities in electronic mode and who acquires shares of the company, becomes a member of the company after dispatch of the notice and holds

shares as of the cut-off date, may follow the login process mentioned in the Notice of AGM. Members can also login by using the existing login credentials of the demat account held with NSDL or CDSL for e-voting facility. Shareholders whose e-mail ids are not registered can get the same registered with the

company by providing folio number, scanned copy of the share certificate, PAN and Aadhaar by sending email to investorgrievancewmcl@gmail.com. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Notice of AGM for information purposes only.

Voting process before / during the AGM in a fair and transparent manner.

Date: 05.09.2024

Place: Mohali

Mr. Mast Ram Chechi, proprietor of M/s. M. R. Chechi & Associates, Practicing Company

Secretary, Chandigarh has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-

In case of any queries for remote e-Voting (before / during the AGM), you may refer FAQs and e-voting user manual for shareholders available in the 'Downloads' section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL on the toll-free number: 1800 1020 990/1800 224 430 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

For Prism Medico & Pharmacy Limited Sameer Gupta **Company Secretary**

CIN No: L24232DL1996PLC227773 Regd. Office : Plot No. 55, Office No. 104, First Floor, Vijay Block, Laxmi Nagar, East Delhi, New Delhi-110092, India, Website: www.welcuredrugs.com, E-mail:-welcuredrugs227@gmail.com, Tel No-011-27011428,

NOTICE OF 32ND ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of Welcure Drugs & Pharmaceuticals: Limited on Monday, 30th September, 2024 at 12.30 P.M. (IST) through

Physical mode at the registered office of the company. The Annual Report of the Company including the Notice convening the AGM of the Company wassent through electronic mode to all the Members whose email IDs are registered with theDepository

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Managementand tministration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its Members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set in the AGM Notice dated September 02, 2024. The Company has availed the remote e-voting services asprovided by Central Depository Services Limited (CDSL), Mrs. Vishakha Agrawal, Practicing Company Secretary, Indore has been appointed as Scrutinizer for conducting the e-voting process infair and transparent manner. The voting period begins at 9.00 A.M (IST) on Friday, September 27,2024 and ends at 5.00 P.M (IST) on Sunday, September 29, 2024. During this period, Members of the Company whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as on the cut off date i.e. Monday, September 23, 2024, may cast their vote electronically. Once the vote onresolution(s) is cast by Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Theremote e-voting nodule shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

cut off date can attend the AGM through Physical mode at the registered office of the company and send a requisition quoting Folio No./DP-ID-Client ID for obtaining copy of the Notice and Annual Report, to the Registered Office of the Company or RTA, Skyline Financial Services Private Limited. TheMembers are requested to follow the instructions given in Note the Notice of AGM to get the loginID & Password for remote e-voting. Members who cast their votes electronically shall not be allowed to vote again at the AGM. However,

in case a Member, who has cast his vote electronically; can attend the AGM through Physical mode at the registered office of the company. The Notice of AGM is available on the website of the Company viz., www.welcuredrugs.com and also on website of CDSL www.cdslindia.com.ln case of queries/grievances with regard to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions("FAQ"

> By Order of the Board For Welcure Drugs and Pharmaceuticals Limited

Managing Director and CFO DIN: 10351528

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

at 03.00 P.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to ransact the business, as set out in the Notice of the AGM only through e-voting facility. The AGM will be held only through VC / OAVM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and in compliance of MCA Genera Circular No. 09/2023 dated September, 25 2023, General Circulars 2/2022 dt. May, 5 2022 and 19/2021 dt. December, 08 2021 and General Circulars No. 20/ 2020 dated May, 5 2020, (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7" October 2023 ('SEBI Circulars') issued by SEBI and other

Facility for appointment of proxy will not be available for the AGM. The instructions for joining the AGM electronically are provided in the Notice of the AGM. Notice of the AGM along with the Annual Report 2023-24 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or CDSL/ NSDL ("Depositories") and will also be available on the Company's

Remote E-Voting Information

The Company has engaged the services of Kfin as the authorized agency for conducting of the AGM electronically and for providing e-voting facility. The remote e-voting period will commence from Tuesday, 24th September, 2024 (9:00 a.m. IST) and ends on Thursday. 26th September, 2024 (5:00 p.m. IST). During this period the eligible shareholders of the

The cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote evoting and e-voting at the AGM is Friday, 20" September, 2024. Any person, who becomes member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to 1800-3454-001 evoting@Kfintech.com by mentioning folio no./DPID and Client Id or contact on: - Tel: 022-23058738 to cast his/her vote. If the member is already registered with Kfin for e-voting then existing USER ID and password can be used for casting the vote. The detailed procedure for obtaining the login ID and password and exercising e-voting is provided in

Book Closure

Notice is also hereby given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed Saturday, 21" September, 2024 to Friday, 27" September, 2024, both days inclusive, for the AGM.

members may contact KFin Technologies Limited at the toll free No. 1800-345-4001 or write at einward.ris@kfintech.com and evoting@kfintech.com.

By the Order of the Board of Directors

For Jindal Poly Investment and Finance Company Limited

Place: New Delhi Swati Tiwari Company Secretary



Regd. Office: 4F-15, 'Oliver House', New Power House Road, Jodhpur- 342003

Phone: +91-291-2765400 to 09 | Fax: +91-291-2765410 E-mail: md@ somiconveyor.com | Website: www.somiinvestor.com

BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 24th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Monday, 30 th September, 2024 at 11:30 a.m. at 4F-15, 'Oliver House', New Power House Road, Jodhpur

The Integrated Annual Report for the financial year 2023-24 including the notice convening the AGM has been sent to the members of the Company electronically to those members who have registered their email address with the Depositories/Company. The said Annual Report is available on the Company's website and also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days during business hours up to the date of the Meeting.

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 24th September, 2024 to 30 th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the 24 th AGM of the Company, Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting").

The members may cast their votes using an electronic voting system

from a place other than the venue of the Meeting ("remote e-voting").

The communication relating to remote e-voting is given in the Notice convening the AGM, uploaded on the website of the Company at www.somiinvestor.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. Members are requested to further note the

September, 2024 at 9.00 a.m and end on Sunday, 29 th September, 2024 at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the aforesaid date and time.

Owners as on the cut-off date, i.e., Monday, 23 rd September, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting /voting at the (c) A person who becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on cut-off date may follow the

(d) Facility of voting through Poll paper will be made available at the AGM and Members attending the Meeting, who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the Meeting through

(e) The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote(s) again.

to the Company at Somi Conveyor Beltings Limited, 4F-15, 'Oliver House', New power House Road, Jodhpur - 342003, Tel: +91-291-2765400 to 09, email id - md@somiconveyor.com santosh.gamare@linkintime.co.in

WELCURE DRUGS & PHARMACEUTICALS LTD.

Participant(s)/Company's Registrar & Share Transfer Agents, Skyline Financial Services Private Limited Remote E-voting (voting on resolutions proposed at the AGM through electronic mode):

Any person, who become Member of the Company subsequent to the sending of email/dispatch fAnnual Report and their names appear in the Register of Members/Beneficial Owners as on the

and e-voting manual available at evoting @cdslindia.com or CDSL's toll free member 180022 55

JINDAL POLY INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED CIN: L65923UP2012PLC051433 Regd Off: 19th K.M., Hapur - Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Distt. Bulandshahr, UP - 203408

Corp Off: Plot no. 12, Sector B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi - 110 070 Tel No; 011-40322100; E-mail Id: cs_jpifcl@jindalgroup.com; Website: www.jpifcl.com

Notice is hereby given that 12" Annual General Meeting (AGM) of the Members of Jinda

Poly Investment and Finance ("the Company") will be held on Friday, September 27, 2024

applicable notifications in this regard permitted the holding of the Annual General Meeting ('AGM') through Video Conferencing ('VC') facility or other audio visual means ('OAVM'),

website www.jpifcl.com and website of the Stock Exchanges i.e. at www.nseindia.com and

Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, may cast their vote electronically. The e-voting module will be disabled by Kfin for voting thereafter i.e. voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on September 26, 2024. Facility for e-voting shall also be made available during the AGM to those Members who attend the AGM and who have not already casted their vote. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

the Notice of AGM.

In case of any guery regarding e-voting or technical assistance for VC/OAVM participation,

Date: September 5, 2024 SOMI CONVEYOR BELTINGS LIMITED

CIN: L25192RJ2000PLC016480 NOTICE OF 24th ANNUAL GENERAL MEETING,

342003 to transact the business as set out in the Notice of AGM.

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the agency to provide e-voting facility.

(a) The remote e-voting facility shall commence on Friday, 27th (b) A person whose name appears in the Register of Members / Beneficial

procedure as stated in Notice of AGM, and exercise his right to vote by remote e-voting.

(f) Any queries/grievances relating to remote e-voting may be addressed

By order of the Board of Directors For SOMI CONVEYOR BELTINGS LIMITED Place: Jodhpur

Om Prakash Bhansali Date: 5 th September, 2024 Managing Director

financialexp.epapr.in New Delhi

33 for any information or clarification regarding E-voting.

Date: 06.09.2024

Altaf Hussain Shah

हीरो हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. ७, कम्युनिटी सेन्टर, बसन्त लोक, वसन्त

सार्वजनिक सूचना (ई-नीलामी) अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के तहत)

हीरो हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के पास बंधक अचल सम्पत्ति की वित्तीय आस्तियों क

एतदद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) अथवा उनके कानुनी

वारिसों / प्रतिनिधियों को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित निम्नवर्णित अचल

सम्पत्तियां, जिनका कब्जा हीरो हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त

किया जा चुका है, निम्नवर्णित कर्जदारों, सह-कर्जदारों अथवा गारंटरों से बकाया राशि की वसुली के लिए

दिनांक 25—सितम्बर—2024 (ई—नीलामी की तिथि) को "जैसी है जहां है", "जो है जैसी है" तथा "जो भी वहां

है" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा नीचे वर्णित की गई है। सार्वजनिक

्−नीलामी में भाग लेने हेतु ईएमडी डिमोंड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से बोली प्रपत्र के

साथ हीरो हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के पास 24–सितम्बर–2024 को अथवा पूर्व अप.

5 बजे तक, शाखा कार्यालय : कार्यालय संख्या 27, कम्युनिटी सेन्टर, बसन्त लोक, वसन्त विहार, नई

मांग सूचना की

तिथि

मांग सूचना

की तिथि

19-09-2022

र्फ. 17,32,551 ∕

दिनांक 01.09.2024

तक

सम्पत्ति का वर्णन :– फ्लैट नंबर यूजीएफ 4, एलआईजी अपर ग्राउण्ड फ्लोर, छत के अधिकार नहीं, फ्रंट साइड

जिसमें एक ड्राइंग / डाइनिंग रूम, एक बेडरूम, एक टॉयलेट, एक किचेन एक बालकनी है, कवर्ड एरिया परिमाप

344 वर्ग फीट यानी 31.95 वर्ग मीटर, प्लॉट नंबर 15 और 16, खसरा नंबर 185, खुशहाल विहार कालोनी, ग्राम

सादुल्लाबाद, परगना एवं तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102, उत्तर : फ्लैट नंबर युजीएफ

19-07-2023

र्फ. 26,69,485 /

सम्पत्ति का वर्णन :- फ्लैट नंबर एसएफ-1, एमआईजी, द्वितीय तल, छत के अधिकार सहित, राइट साइड

जिसमें एक ड्राइंग / डाइनिंग रूम, दो बेडरूम, दो टॉयलेट, एक किचेन एक बालकनी है, कवर्ड एरिया परिमाप

508 वर्ग फीट यानी 47.19 वर्ग मीटर, प्लॉट नंबर एफ-64, खसरा नंबर 1213, ब्लॉक एफ, एसएलएफ वेद

विहार, ग्राम लोनी परगना एवं तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102, पूरव : प्लॉट नंबर

23-05-2022

ক. 19.34.169 /-

दिनांक 03-09-2024

सम्पत्ति का वर्णन :-- फ्लैट नंबर एस-4, द्वितीय तल, एलआईजी, एलएचएस, छत के अधिकार नहीं, कवर्ड

एरिया 37.16 वर्ग मीटर यानी 400 वर्ग फीट, प्लॉट नंबर 16, खसरा नंबर 80 मिन यु.एम. सुदामापुरी कालोनी . (कृष्ण वाटिका) ग्राम — ड्रंडाहेड़ा, परगना लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201009, प्लॉट नंबर 16,

चौंहद्दी — उत्तर : प्लॉर्ट नंबर 17, पूरब : 20 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण : प्लॉट नंबर 15, पश्चिम : प्लॉट

नियम और शतेँ : ई—नीलामी पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से 25—सितम्बर–2024

(ई–नीलामी की तिथि) को अप. 2.00 बजे के बाद 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ आयोजित

इच्छुक क्रेताओं / बोलीदाताओं को ईएमडी राशि "हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष

आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से अथवा डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा

करनी होगी। नीलामी के बाद असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि नीलामी समाप्त होने के बाद वापस कर

1) ई—नीलामी "जैसी है जहां है", "जो है जैसी है" तथा "जो भी वहां है" तथा "कोई उपाय नहीं" आधार पर

आयोजित की जा रही है तथा "ऑनलाइन" संचालित की जाएगी। 2) बोली वृद्धि राशि रू. 15,000/— (रुपये

पंद्रह हजार मात्र) होगी। 3) ई—नीलामी मैसर्स ई—प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉर्जीज लिमिटेड (हेल्पलाइन नंबर

support@auctiontiger.net/ maulik.shrimali@auctiontiger.net) के माध्यम से उनके वेबपोर्टल

https://sarfaesi.auctiontiger.net पर संचालित की जाएगी। 4) प्रतिभूत लेनदार की जानकारी व

अनुसार सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। तथापि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले

सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया राशियों तथा नीलामी हेतु प्रस्तुत सम्पत्ति वे

स्वामित्व, ऋणभारों के संबंध में अपनी स्वयं की स्वतंत्र जांच कर लेनी चाहिए। इस संबंध में, ई–नीलामी

विज्ञापन हीरो हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड की ओर से कोई वचनबद्धता अथवा अभिवेदन निर्मित नहीं करता है

और न ऐसा करता माना जाएगा। 5) प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी तृतीय पक्ष

का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों / शर्तो

के तहत होगी। ई-नीलामी के अन्य नियम एवं शर्ते निम्न वेबसाइट www.herohousingfinance.com पर

प्रकाशित की गई हैं। 6) सम्पत्ति के विवरण तथा निरीक्षण के लिए सम्पर्क करें – श्री इरशाद अली,

shekhar.singh@herohfl.com/9711522275 7) संभावित बोलीदाता सम्पत्ति का निरीक्षण भेंट का समय

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को बिक्री के संबंध में 15 दिन का नोटिस

उपरोक्त कर्जदार / बंधकदाता / गारंटरों को एतद्दवारा धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस में उल्लिखित राशि क

भगतान करने के लिए नीलामी की तारीख से पहले ब्याज और व्यय के साथ भूगतान करने के लिए सूचन

दी जाती है, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्यांज

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(प्रतिभूत लेनदार) की वेबसाइट यानी www.herohousingfinance.com पर

https://uat.herohomefinance.in/hero housing/other-notice ਸੇਂ

दिया गया लिंक देखें।

सदस्यों को 68वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, खातों के बंद होने एवं

ई-वोटिंग की जानकारी

यह हमारी दिनांक 28 अगस्त, 2024 की पूर्ववर्ती सूचना से आगे हैं, जिसके द्वारा एसटीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड ("दि

कंपनी") के सदस्यों को सुचित किया गया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों और उसके तहत

नियमों और कारपोरेट मामले ("एमसीए") मंत्रालय द्वारा उनके परिपन्न सं. 2/2022 दिनांक मई 05, 2022 के साध

पठित सामान्य परिपन्न संख्या ०७ / २०२३ दिनांक सितम्बर २५, २०२३, सामान्य परिपन्न संख्या २० / २०२० दिनांक ०६ मई

2020 के अनुसार सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 और 17 / 2020 क्रमशक्त दिनांक 08 अप्रैल, 2020 और अप्रैल, 2020

सामान्य परिपत्र संख्या के साथ पठित 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022

दिनांक ५ मई २०२२ और सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक २८ दिसंबर २०२२ और परिपत्र संख्या

सेवी / एचओ / सीएमडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020, परिएत्र संख्या

सिबी/एक्ओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021, परिपन्न संख्या

सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआई आर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022, औ

सेबी / एवओ / सीएफडी / पीओडी–2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 भारतीय प्रतिभृति और

विनिमय ब्रोर्ड द्वारा जारी (फ्रोंबी परिपत्र) के अनुपालन में, एक आम रखल पर सदस्यों की मौतिक उपरिवाति के बिना

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य दृश्य-श्रव्य मध्यमाँ ('ओएवीएम') की सुविधा के मध्यम से शुक्रवार, 27 सितम्बर

2024 को अपराह 03:30 बजे कंपनी की 68वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने का निर्णय लिया गया था।

68वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और 31 मार्च, 2024 को समाप्त बिलीय वर्ष की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ

ई-वोटिंग सहित वीसी / ओएवीएम की सुविधा के माध्यम से 68वीं वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए लॉगइ-

विवरण उन सभी सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से वीरवार, दिनांक 05 सितम्बर, 2024 को भेजे गए हैं, जिनके ई-मेल

पते कंपनी अधवा रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अधवा उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुसार

अपने संबंधित विपॉजिटरी भागीदारों ("ढीपी") के साथ पंजीकृत है, और यह कंपनी की वेबसाइ

(www.stclimited.co.in), स्टॉक एक्सबेन की वेबसइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com)

और नैप्रनल सेक्ट्रिटीस डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट (www.nsdl.co.in) पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014. सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्था

द्वारा जारी सिंधवीय मानक-2 और एमसीए परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में

88वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लेखित समी संकल्पों पर एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई गयी दूरस्थ वोटिंग

(एजीएम से पूर्व) और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) सेवाओं के मध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से अपना मतदान करने की

दूरस्थ ई-वोटिंग मंगलवार, 24 सितम्बर, 2024 (पूर्वाह 09:00 बजे) प्रारंग होगी और गुरुवार, 26 सितम्बर, 2024 (अपरा

05:00 बजे) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान सदस्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं। इसवे

पश्चात दूरस्थ ई-बोटिंग माढ्यूल को वोटिंग हेतु एन.एस.डी.एल द्वारा बंद कर दिया जाएगा।

दि स्टेट ट्रेडिंग कापीरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(सी.आई.एन. : L74899DL1956G0N2674 पंजी. कार्यालय जवाहर व्यापार भवन, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली—110001

फोन नं. 011—2331377, फैक्स: 23701123, वेबसाईट : www.stclimiled.co.in

वास्ते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

प्राधिकृत अधिकारी, श्री सुनील यादव,

ई-मेल : assetdisposal@herohfl.com

मोबाइल- 9818840495

पूर्व निर्धारित कर दिनांक 18-09-2024 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 02.00 बजे के बीच कर सकते हैं

07961200576 / 544 / 594 / 596 / 531 / 583 / 569, 6351896643 तथा

लों / अधिकारों / बकारा। राष्ट्रियों के लिए किसी भी रूप में जिम्मेटार नहीं

ershad.ali@herohfl.com/8802270415

दिनांक : 06-09-2024

स्थान : दिल्ली/एनसीआर

एफ–63, पश्चिम : अन्य फ्लैट, उत्तर : अन्य भूमि, दक्षिण : 18 मीटर चौड़ी रोड (60 फीट),

दिनांक 01-09-2024

3, पूरब : 15 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण : फ्लैट नंबर यूजीएफ 5, पश्चिम : प्रवेश एवं फ्लैट नंबर यूजीएफ 6

कब्जा का

प्रकार

(प्रलक्षित 🗸

कब्जा)

(भौतिक)

सुरक्षित

मूल्य

6,30,000/-

₹0.

15,60,000/- 1,56,000/-

8,50,000/- 85,000 / -

धरोहर

राशि

63,000/-

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन बिक्री हेतु सूचना

दिल्ली-110057

दिल्ली-110057 में जमा करना होगा।

HHFNSPHOU पृष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल,

HHFGAZHOU कमल किशोर, अनीता

मंजू पुत्री देवेन्द्र

पत्नी कमल किशोर

HHFDELHO

HHFDELIPL2

21000013650,

HHFNSPIPL2

21000011871,

HHFGAZLAP

नंबर 33

दी जाएगी

ई—नीलामी के नियम और शर्ते

कर्जदार(रों) /

सह–कर्जदार(रों) /

गारटर(रों) / कानूनी

वारिस(सों) / कानूनी

प्रतिनिधि का नाम

कष्ण कान्त कमार पांडे

लक्ष्मी कान्त पांडे,

विहार, नई दिल्ली–110057

पंजीकृत कार्यालय: 09, कम्युनिटी सेन्टर, बसन्त लोक, वसन्त विहार, नई

जनसता

सीआईएनः L01122DL1984PLC018307 पंजीकृत कार्यालयः 55, द्वितीय तल, लेन 2, वेस्टेंड मार्ग, सैदुल्लाजाब, साकेत मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली, दिल्ली – 110030

आयुष वेलनेस लिमिटेड

(पहले आयुष फूड एंड हर्ब्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

संपर्क नंबर: +91 84486 93031 |

ईमेलः cs@aayushwellness.com । वेबसाइटः www.aayushwellness.com वार्षिक आम बैठक की सचना

ततद्वारा सचित किया जाता है कि आयष वेलनेस लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की 40वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को दोपहर 12:00 बजे आईएसटी पर वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की नूचना में निर्धारित व्यवसायों का संचालन किया जा सकेः

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि: कंपनी ने 04 सितंबर, 2024 को अनुमत मोड के माध्यम से सदस्यों को एजीएम की सूचना भेजने का

सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा ("ई-वोटिंग") सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की जाएगी और इसके लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी

रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के माध्यम से वोट करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 20 सितंबर, 2024 होगी। जिन व्यक्तियों का नाम कट-ऑफ तिथि तक बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल

वे ही ई-वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। रिमोट ई-वोटिंग अवधि 24 सितंबर, 2024 (09:00 पूर्वाह्र) से शुरू होगी और 26 सितंबर, 2024 (05:00

अपराह) को समाप्त होगी। सदस्य एजीएम के समय भी अपना वोट डाल सकते हैं। कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक एजीएम के उद्देश्य से 21 सितंबर, 2024 से

27 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सिमालित) की अवधि के लिए बंद रहेंगे। कोई भी व्यक्ति जो नोटिस भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जात है तथा 20 सितंबर, 2024 की कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह अपना वोट इलेक्टॉनिक रू से डालने के लिए helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए CDSL के साथ पहले

से ही पंजीकृत है, तो वह अपना वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग

जिन सदस्यों ने बैठक से पहले ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे भी बैठक में भाग ले

सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। नेधारित अवधि के भीतर घोषित परिणाम, संवीक्षक रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित कि गएंगे तथा स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किए जाएंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि यदि ई—वोटिंग के संबंध में आपके कोई प्रश्न या समस्याएँ हैं, तो आप सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') तथा ई—वोटिंग मैन्अल देख सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई—मेल लिख सकते हैं अथवा 1800

22 55 33 पर कॉल कर सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज आयुष वेलनेस लिमिटेड के लि

(पूर्व में आयुष फूड एंड हर्ब्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता थ नवीनकुमार कुंजारू प्रबंध निदेशक डीनः 07087891

दिनांकः 05.09.2024 स्थानः दिल्ली

सकते हैं।

सुप्रीम कमर्शियल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय- वाई-4-A-C, लोहा मण्डी, नारायणा, नई दिल्ली- 110028 CIN: L51909DL1983PLC016724, PH NO: 9350150766 EMAIL ID:-supremecommercial@gmail.com चालीसवीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना, रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

एतदद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि सुप्रीम कमर्शिल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की उन्तालीसवीं वार्षिक साधारण बैटक ("एजीएम") की सचना में वर्णित सामान्य व्यवसायों के निष्पादन हेत् सोमवार, 30 सितम्बर, 2024 को प्रातः 11:30 बजे 35, लिंक रोड, द्वितीय मंजिल, लाजपत नगर-III, नई दिल्ली-110024 में आयोजित की जायेगी। सदस्यों को वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना एवं ई–वोटिंग प्रक्रिया को भेजने का कार्य 6 सितम्बर, 2024 को पूरा कर लिया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 91 एवं सेबी (लिस्टिंग दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के प्रावधानों केअनुसरण में कम्पनी के सदस्यों का पंजिका एवं शेयर हस्तांतरण किताबें 24 सितम्बर, 2024 से 30 सितम्बर, 2024 एजीएम के उदेश्य हेतू बंद रहेंगी। बैठक में किये जाने वाले व्यवसाय से सम्बन्धित प्रसांगिक दस्तावेज कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में रविवार और सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे बैठक की तिथि तक निरीक्षण के लिए खले

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 108 साथ में पिंटत कम्पनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 यथासंशोधित एवं सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2014 के विनियमन 44 के अनुसरण में पुनः सूचना प्रदान की जाती है किः

1. कम्पनी सदस्यों को नेशनल डिपॉजटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के द्वारा ई-वोटिंग की सचिधा प्रदान करा रही है ताकि वे एजीएम की सचना में में उल्लिखित मदों पर स्वचालित रूप से अपना वोट दे सकें। कम्पनी श्री राकेश कमार, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस-7695 एण्ड सी० पी० न० 8553), प्रोपराईटर ऑफ मैसर्स आर० के० एण्ड एसोसियेट्स, कार्यरत कम्पनी सचिव को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तारीके से संचालन के लिए जाँकर्त्ता के रूप में नियुक्त किया

2. ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 को प्रातः 09:00 बजे से प्रारम्भ होकर रविवार, 29 सितम्बर, 2024 सायं 05:00 बजे पर समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कट-ऑफ तिथि यानि 23 सितम्बर, 2024 को भौतिक एवं अथवा डीमैट प्रपत्र में शेयर धारित कम्पनी के सदस्य स्वचालित रूप से अपना वोट दे सकते हैं। उसके अलावा एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को पोल/टैब वोटिंग के माध्यम से वोट करने की स्विधा उपलब्ध कराई जायेगी। हालाँकि जो सदस्य एजीएम से पहले मिोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दे चुके हैं, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट देने के हेदार

3. एक व्यक्ति जिसकस नाम सदस्यों/लाभदाई स्वामी की पंजिका में कट–ऑफ तिथि यानि सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 को अंकित होगा केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की

स्विधा के साथ एजीएम में वोटिंग का हकदार होगा। 4. किसी भी व्यक्ति ने कम्पनी के शेयर्स अधिग्रहित किये हों और सूचना को भेजने के बाद कम्पनी कर सदस्य बना हो और कट-ऑफ तिथि यानि 23 सितम्बर, 2024 को शेयर धारण करता हो, लॉगइन साख प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर

आग्रह कर सकता है। 5. एक सदस्य ई–वोटिंग द्वारा अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक साधारण बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन बैठक में फिर से वोट देने की अनुमति

6. सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.supremecommercial.co.in पर उपलब्ध है।

जो सदस्य इस सम्बन्ध में कोई जानकारी चाहते हैं अथवा इसके सम्बन्धित किसी भी प्रश्न के लिए कम्पनी को supremecommercial@gmail.com जल्दी से जल्दी लिख सकते हैं

ताकि प्रबन्धन जानकारी तैयार रख सके। कृते सुप्रीम कमर्शिलन इनटरप्राईजेज लिमिटेड

तिथि : 05.09.2024 स्थान : दिल्ली

कम्पनी सचिव

हस्ता०/-

इशिका गर्ग

PRISM MEDICO AND PHARMACY LIMITED

CIN: L24100HP2002PLC009299; Registered Office: Suketi Road, Kala Amb, Sirmaur, Himachal Pradesh-173030

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting (AGM) of the members of Prism Medico and Pharmacy Limited will be held on Monday, the 30th day of September, 2024 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means only, to transact the business as set out in the Notice of the AGM. The notice of the AGM will be sent through electronic mode only to those members whose e-mail ids are registered with the company, RTA and depositories. The requirement of sending physical copies of Notice of AGM has been dispensed vide MCA Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, May 5, 2022 and December 28, 2022 and SEBI Circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021. The Notice of AGM is available on the website of the company at www.prismmedico.in, websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com

and and website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Book Closure and Dividend: The Register of Members and the Share Transfer Books of the company will remain closed from Monday, September 23, 2024 to Monday, September

30, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM. Remote e-Voting: In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the company is providing facility of remote e-Voting before / during the AGM. The company has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means.

E-Voting facility would be available from Friday, September 27, 2024 (9:00 A.M.IST) to Sunday, September 29, 2024 (5:00 P.M. IST) and shall be disabled by NSDL thereafter. The voting rights of the members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the company as on Monday, September 23, 2024 ('cut-off date'). The facility of remote e-voting system shall also be made available during meeting and the members attending the meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right during the meeting. A person whose name is recorded

in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before / during the AGM. Members who have casted their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting electronically, but shall not be entitled to vote again. A non-individual shareholder or shareholder holding securities in physical mode, who acquires shares of the company and becomes a member of the company after the dispatch of the notice and holds shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and

Password for e-Voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if the member is already registered with NSDL for remote e-Voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote. Individual shareholders holding securities in electronic mode and who acquires shares

of the company, becomes a member of the company after dispatch of the notice and holds shares as of the cut-off date, may follow the login process mentioned in the Notice of AGM. Members can also login by using the existing login credentials of the demat account held with NSDL or CDSL for e-voting facility.

Shareholders whose e-mail ids are not registered can get the same registered with the company by providing folio number, scanned copy of the share certificate, PAN and Aadhaar by sending email to investorgrievancewmcl@gmail.com.

A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Notice of AGM for Mr. Mast Ram Chechi, proprietor of M/s. M. R. Chechi & Associates, Practicing Company

Secretary, Chandigarh has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-Voting process before / during the AGM in a fair and transparent manner. In case of any queries for remote e-Voting (before / during the AGM), you may refer FAQs

and e-voting user manual for shareholders available in the 'Downloads' section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL on the toll-free number: 1800 1020 990/1800 224 430 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

For Prism Medico & Pharmacy Limited Sameer Gupta Date: 05.09.2024 Company Secretary Place: Mohali

विस्तार फाइनेशियल सर्विसेज प्राइवेट लिभिटेड पंजीकृत कार्यालय:- प्लॉट नंबर 59 और 60-23, 22वां क्रॉस, 29वां मेन,

WELCURE DRUGS & PHARMACEUTICALS LTD.

CIN No: L24232DL1996PLC227773

Regd. Office: Plot No. 55, Office No. 104, First Floor, Vijay Block,

Laxmi Nagar, East Delhi, New Delhi-110092, India.

Website: www.welcuredrugs.com, E-mail:-welcuredrugs227@gmail.com, Tel No-011-27011428,

NOTICE OF 32ND ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of Welcure

Drugs & Pharmaceuticals Limited on Monday, 30th September, 2024 at 12:30 P.M. (IST) through

The Annual Report of the Company including the Notice convening the AGM of the Company

wassent through electronic mode to all the Members whose email IDs are registered with theDepository

Participant/s)/Company's Registrar & Share Transfer Agents, Skyline Financial Services Private Limited

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Managementan

Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its Members.

enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set in the AGM Notice dated

September 02, 2024. The Company has availed the remote e-voting services asprovided by Central

Depository Services Limited (CDSL). Mrs. Vishakha Agrawal, Practicing Company Secretary, Indore,

has been appointed as Scrutinizer for conducting the e-voting process infair and transparent manner. The voting period begins at 9.00 A.M (IST) on Friday, September 27,2024 and ends at

5.00 P.M (IST) on Sunday, September 29, 2024. During this period, Members of the Company

whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as on the cut off date i.e.

Monday, September 23, 2024, may cast their vote electronically. Once the vote onresolution(s) is

cast by Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Theremote e-voting

Any person, who become Member of the Company subsequent to the sending of email/dispatch

of Annual Report and their names appear in the Register of Members/Beneficial Owners as on the

cut off date can attend the AGM through Physical mode at the registered office of the company and

send a requisition quoting Folio No./DP-ID-Client ID for obtaining copy of the Notice and Annual

Report, to the Registered Office of the Company or RTA, Skyline Financial Services Private Limited.

TheMembers are requested to follow the instructions given in Note the Notice of AGM to get the

Members who cast their votes electronically shall not be allowed to vote again at the AGM. However,

in case a Member, who has cast his vote electronically, can attend the AGM through Physical mode

at the registered office of the company. The Notice of AGM is available on the website of the

Company viz., www.welcuredrugs.com and also on website of CDSL www.odslindia.com.ln case

of queries/grievances with regard to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions("FAQ")

and e-voting manual available at evoting @cdslindia.com or CDSL's toll free member 180022 55

प्रद्युम्न स्टील्स लिमिटेड

सीआईएनः L27109DL1972PLC319974

रजि. कार्यालयः फ्लैट नंबर 702, 7वीं मंजिल, कंचनजंगा बिल्डिंग 18,

बाराखंभा रोड, नई दिल्ली -110001

फोन: +91 11 23310001-05, ईमेल: hcsIndl@yahoo.co.in, वेबसाइट: www.psteelltd.com

51वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि प्रद्युम्न स्टील्स लिमिटेड के सदस्यों की 51वीं वार्षिक

आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितंबर, 2024 की दोपहर 1:00 बजे कंपनी के

पंजीकृत कार्यालय पलैट नंबर 702, 7वीं मंजिल, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18, बाराखंभा रोड,

नई दिल्ली–110001 में आयोजित की जाएगी, जिसमें सदस्यों को भेजी गई सूचना में

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां

उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी

कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम के नोटिस में निर्धारित कारोबार पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से

अपना बोट डालने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से

रिमोट ई—वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ("रिमोट ई—वोटिंग") और सभी सदस्यों को सूचित

1. एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से

29.09.2024 को शाम 5:00 बजे के बाद ई—वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. विलीय वर्ष 2023-24 के लिए एजीएम की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट भी

7. ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य एनएसडीएल से संपर्क कर

ई-वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्धारित

वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से सदस्यों का रिजस्टर और शेयर ट्रांसफर वृक

मेगनम वैचर्स लिमिटेड

सीआईएन : L21093DL1980PLC010492

पंजीकृत कार्यालयः एचएनओ—एमएन ० १, हब औरओक , ई — 14 , लोअर ग्राउंड फ्लोर , डिफेंस कॉलोनी , नई दिल्ली—110 0 2 4 .

दूरभाष:+91-11-42420015 ई-मेल:info@magnumventures.in

वेबसाइट :www.magnumventures.in

44वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, पुस्तक समापन

और दूरस्थ ई-वोटिंग जानकारी

नोटिस दिया जाता है कि मैग्नम वेंचर्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 44वीं वार्षिक आम बैठक

(एजीएम) शनिवार, 28 सितंबर, 2024 को दोपहर 02:00 बजे वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") के माध्यम से

आयोजित की जाएगी, जैसा कि उक्त वार्षिक आम बैठक बलाने वाले नोटिस में निर्वारित किया गया है ।

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट और दूरस्थ ई—वोटिंग विवरण के साथ

एजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेज दी गई है, जिनके पास रिकॉर्ड तारीख यानी |

30 अगस्त, 2024 तक शेयर हैं, जिनकी ईमेंल आईडी कंपनी 🖊 आरटीए 🦯 डिपॉजिटरी (ऑ) के साथ 🛭

पंजीकृत है । शेयरघारकों को नोटिस के ईमेल पूरा होने की तारीख 05 सितंबर, 2024 है । उक्त दस्तावेजों |

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सामान्य

यदि आपने कंपनी 🖊 डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित्त वर्ष

2023—24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने और ई—वोटिंग

भौतिक होत्डिंगः ईमेल पते को पंजीकृत करने के लिए कंपनी, एमएएस सर्विसेज लिमिटेंड के रजिस्ट्रार

और ट्रांसफर एजेंटों को आईएसआर —1 भेजें। कृपया मूल रद चेक के साथ अपना बैंक विवरण हमारे

आरटीए (यानी एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी –34 2 मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस –॥, नई

दिल्ली—110020) को फोलियो न. का उल्लेख करने वाले पत्र के साथ भेजें, यदि पहले से पंजीकृत नहीं है ।

डीमैट होल्डिंगरू कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई

प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें । कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर एनएसीएच द्वारा

नोटिस यह भी दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (लिरिटंग दायित्व और

प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर

और शेयर ट्रांसफर बुक 22 सितंबर, 2024 से 28 सितंबर, 2024 (दोनों दिन शामिल) तक एजीएम के

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के

नियम 20 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44

के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा

अपने पोर्टल www.evoting.nsdl.com के माध्यम से सभी व्यवसायों को लेनदेन करने के लिए ई—वोटिंग

क रिमोट ई–वोटिंग बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को सुबह 09.00 बजे शुक्त होगी और शुक्रवार

27 सितंबर, 2024 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगी। दूरस्थ ई-वोटिंग पूर्वोक्त तिथि और समय से

ख. एजीएम में दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की

कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ

तारीख यानी 21 सितंबर, 2024 को शेयर रखता है, वह नोटिस में ई-वोटिंग निर्देश में दिए गए

अनुसार उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड उत्पन्न कर सकता है या आप evoting@nsdl.co.in या

मैसर्स एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी -34, दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज -2, नई

दिल्ली-110020फोन-011-26387281 / 82 / 83. फॅक्स-011-26387384. इंमेल:

nvestor@masserv.com पर कंपनी के आर एंड टी एजेंट, पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से

हालांकि, यदि सदस्य पहले से ही दुरस्थ ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो वे

बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा।

अपना वोट डालने के लिए अपने मीजदा यजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके

. एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति

च. ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने

सदस्य एजीएम नोटिस में दिए गए विस्तृत ई-वोटिंग निर्देशों को पढ़ सकते हैं या

www.evoting.nsdl.com का दौरा कर सकते हैं और ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी

प्रश्न / शिकायत cs mvl@cissahibabad.in मैग्नम वेंचर्स लिमिटेड की कंपनी सचिव सुश्री

आइना गुप्ता या श्री श्रवण मंगला, जीएम, मास सर्विसेज लिमिटेड, आरटीए को

मैगनम वैंचर्स लिमिटेड के लिए

ভীআছएন: 0 0 0 24879

हस्ता/-

प्रदीप कुमार जैन

(प्रबंध-निदेशक)

श्री मनीश कमार शर्मा (अधिवक्ता और दिवाला पेशेवर), को ई—वोटिंग प्रक्रिया के लिए जांचकर्ता के

एजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना बोट खाला है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन

लागांश नुगतान के लिए कृपया अपने डीपी के साथ अपने बँक विवरण को भी अपडेट करें ।

सविधा की पेशकश की है ताकि सदस्य इलेक्ट्रोंनिक रूप से अपना बोट ढाल सकें।

परिपत्रों के अनुसार, इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) व

को कंपनी की वेबसाइट www.magnumventures.in पर भी देखा जा सकता ।

के लिए लॉमिन विवरण दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति है ।

सदस्य कृपया निम्नलिखित पर ध्यान देः

कट-ऑफ तिथि 21 सितंबर, 2024 है।

फिर से अपना बोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

investor@masserv.com पर संबोधित कर सकते हैं ।

संपर्क कर सकते हैं।

नहीं दी जाएगी।

रूप में नियक्त किया गया है।

तिथ्य : 04.09.2024

स्थान: गाजियाबाद

कृते, प्रद्युम्न स्टील्स लिमिटेड

(मुरारी लाल बिरमीवाला)

ढीआईएनः 00642510

हस्ता/-

निदेशक

24.09.2024 से 30.09.2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे।

सकते हैं, संपर्क विवरण के लिए एनएसडीएल की वेबसाइट देखें या कंपनी के

आरटीए स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से संपर्क करें, ईमेल:

कंपनी की वेबसाइट www.psteelltd.com पर अपलोड की गई है और कलकत्ता

स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (सीएसर्ड) की वेबसाइट www.cse-india.com पर भी

2. एजीएम की सूचना का प्रेषण 05.09.2024 को पूरा हो गया है

रिमोट ई—वोटिंग 27.09.2024 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी

compliance@skylinerta.com.

कट-ऑफ तिथि 23.09.2024 है।

दिनाकः 05.09.2024

स्थानः नई दिल्ली

रिमोट ई—वोटिंग 29.09.2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी।

By Order of the Board

Managing Director and CFO

Altaf Hussain Shah

DIN: 10351528

For Welcure Drugs and Pharmaceuticals Limited

Remote E-voting (voting on resolutions proposed at the AGM through electronic mode):

Physical mode at the registered office of the company.

module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

33 for any information or clarification regarding E-voting.

उल्लिखित व्यवसाय का संघालन किया जाएगा।

प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत है।

किया जाता है कि:

coinID & Password for remote e-voting

Date: 06.09.2024

Place. Delhi

FINANCE बीटीएम लेआउट स्टेज 2, बेंगलुरु — 560076 www.vistaarfinance.com परिशिष्ट -IV [नियम -8(1) देखें|

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

नबिक, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम इ के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 27—05—2024 को डिमांड नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता (ओं) श्री गुलबहार अहमद और श्रीमती सायरा बानो को 20–05–2024 तक नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 30,06,089.92 / — (तीस लाख छह हजार नवासी रुपये और बानवे पैसे मात्र) के साथ ऋण खाता संख्या ०२५५एसबीएमएल००७८६ के विरुद्ध वास्तविक वसूली तक भावी ब्याज और शुल्क और लागत आदि चुकाने के लिए कहा गया है।

ऋणी द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, ऋणी और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 04 सितम्बर 2024 को नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन–देन न करने की वेतावनी दी जाती है और संपत्ति से कोई भी लेन–देन विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसकी राशि 20-05-2024 तक 30,06,089.92 / — (तीस लाख छह हजार नवासी रुपये और बानवे पैसे मात्र) होगी, साथ ही वास्तविक भूगतान तक भविष्य के ब्याज और शूल्क और लागत आदि भी।

उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया

अचल संपत्ति का विवरण

र्अचल संपत्ति का वह समस्त भाग और पार्सल अचल संपत्ति मकान क्षेत्रफल 100 वर्ग गज यानि 83.61 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 485 में से, आवासीय कॉलोनी अल्वी नगर में स्थित, गाँव सादुल्लाहबाद लोनी, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के ऱ्वामित्व में श्री गुलबहार अहमद पुत्र श्री सिराजुद्दीन बही संख्या 1, जिल्द संख्या 877, पृष्ठ संख्या २०१ से २२० और पंजीकरण संख्या ५९३५ दिनांक २५/०४/२०२३ के तहत पंजीकृतय पूर्व में इस्लामुद्दीन का मकान, पश्चिम में याकूब मलिक का मकान, उत्तर में 22

दिनांक : 04.09.2024 हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी स्थान : गाजियाबाद विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिभिटेड

कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड

फीट चौडी सडक, दक्षिण में हाजी ताहिर का मकान,

सीआईएनः L33200UP1993PLC015474 पंजीकृत कार्यालयः १३वां के.एन., हापुन-बुलंदशहर रोड, पी.ओ. गुलावठी, जिला बुलन्दशहर – 203408

प्रधान कार्यालयः प्लॉट नं. 12, सेक्टर बीर्-1, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वसंत कुंज, नई दिल्ली — 110070 कौन नंबर: 011-40322100, ई-मेल: cs_cfhl@jindalgroup.com, वेबसाइट: www.consofinvest.com

वार्षिक आम बैठक का नोटिस रिमोट ई-वोटिंग सूचनाएं और खाता बंदी

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक बवीजियों कॉन्फ्रेंसिंग बवीसी") / अन्य ऑडियो विज्अल साधनों "ओएवीएम") के माध्यम से शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को प्रातः 10:30 बजे एजीएम के नोटिस में निर्धारित किए अनुसार कारोबार करने के लिए केवल ई-वोटिंग की सुविधा के साथ आयोजित की

एजीएम केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में और दिनांक 05.05.2020 के सामान्य परिपन्न 20/2020 के मदेनजर और इस मंत्रालय के सामान्य परिपन्न संख्या 02/2022 दिनांक 05.06.2020 और सामान्य परिपन्न संख्या 10 / 2022 दिनांक 28.12.2022 और सामान्य परिपन्न संख्या 09 / 2023 दिनांक 25.09. 2022 और सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एवओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 7 अक्टूबर 2023 और इस संबंध में समय—समय पर लागू अन्य अधिसूचनाओं हारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') सुविधा या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वार्षिक आम बैठक ('एजीएम / 'बैठक') आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है। एजीएम के लिए प्रॉक्ती की नियुक्ति के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं की जाएगी। एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक रूप में भाग लेने के लिए निर्देश एजीएम के नीटिस में प्रदान

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के साथ एजीएम के नोटिस उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जा रहे हैं, जिनके ईमेल पते कंपनी या सीडीएसएल / एनएसडीएल ("डिपॉजिटरी") के साथ पंजीकृत हैं और वे कंपनी की वेबसाइट <u>www.consofinvest.com</u> और स्टोंक एक्सवेंजों की वेबसाइटें अर्थात www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग की सूचनाएं

कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम आयोजित करने और ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएँ ली है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार 26 सितंबर, 2024 को (प्रात: 09:00 बजे भारतीय समयानुसार) से शुरू होगी और गुरुवार, 28 सितंबर, 2024 को (सांय: 05:00 बजे भारतीय समयानुसार) समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के पात्र शेयरधारक, जो भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर धारक हैं. इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉक्वूल को 28 सितंबर, 2024 को साय: 05:00 बजे के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा और वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजीएम के दौरान ई—वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों को भी उपलब्ध कराई जाएगी जो एजीएम में भाग लेंगे और जिन्होंने पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना बोट नहीं ढाला है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई--वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल दिया है, वे वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दबारा अपना बोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

एजीएम में रिमोट ई-वॉटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट—ऑफ तिथि शुक्रवार, 20 सितबर, 2024 है। कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि तक शेयर धारक है, वह अपना वोट डालने के लिए enotices@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर या टेलीफोन: 022 - 4918 6000 पर संपर्क कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया और ई--वोटिंग एजीएम के नोटिल में प्रदान किए गये हैं।

यदि शेयरधारकों / सदस्यों के ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो वे https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू') और इंस्टावोट ई--वोटिंग मैनुअल के सहायता अनुभाग के अंतर्गत देख सकते हैं या enotices@linkintime.co.in पर ईमेल भेज सकते हैं या टेलीफोन: 022 - 4918 8000 पर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के लाथ भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनिधम, 2015 के लागू नियमों और विनिधम 42 के अनुसार यह भी सुचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बहियां एजीएम के लिए शनिवार, 21 सितंबर, 2024 से शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 तक, दोनों दिन शामिल,

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा कृते कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली अनिल कौशल दिनांकः 05 सितंबर, 2024 कंपनी सचिव

जिंदल फोटो लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 19 किमी, हायुरु—बुलंदराहर रोड, पी.ओ. मुलावती, जिला बुलंदशहर (यू.पी.) — 203408 मुख्य कार्यालयः प्लॉट नंबर 12. सेक्टर बी—1. स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, क्संत कुंज, नई दिल्ली— 110070 फोनः 011—40322100, ईमेलः cs_iphoto@jindalgroup.com, बेक्साइटः www.jindalphoto.com

वार्षिक आम बैठक का नोटिस

रिमोट ई-वोटिंग सूचनाएं और खाता बंदी

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि जिंदल फोटो लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 21वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") यीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विज्अल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 की दौपहर 12:30 बजे एजीएम के नोटिस में निर्धारित किए अनुसार कारोबार करने के लिए केवल ई-वोटिंग की सुविधा के साथ एजीएम केवल वीसी / ओएवीएम के मध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके

तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में और 25 सितंबर 2023 के सामान्य परिपन्न 09/2023 के मदेनजर और इस मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05.05.2020, सामान्य परिपन्न संख्या 02/2022 दिनांक 5.05,2022 और सामान्य परिपन्न संख्या 10/2022 दिनांक 28.12.2022 (सामृहिक रूप से "एमसीए परिपन्न" के रूप में संदर्भित) के अनुक्रम में समय-समय पर जारी सभी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के माध्यम से वीडियो कॉनक्रेंसिंग ('वीसी') सविधा या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम सं, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की मौतिक उपस्थिति के बिना, वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') आयोजित करने की अनुमति प्रदान की . गई है। इसी तरह की छुट भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ने भी अपने परिपन्न संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक ? अक्टूबर 2023 (सबी परिपर्न) जार समय—समय पर जारा किए गए अन्य समा प्रासागक परिपत्र (सामृहिक रूप से सेबी परिपन्न के रूप में संदर्भित') के माध्यम से भी प्रदान की गई है। एजीएम के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं की जाएगी। एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक रूप में भाग लेने के लिए निर्देश एजीएम के नीटिस में प्रदान किए गये हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के साथ एजीएम के नोटिस उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जा रहे हैं, जिनके ईमेल पते कंपनी या सीडीएसएल / एनएसडीएल ("डिपॉजिटरी") के साथ पंजीकृत हैं और वे कंपनी की वेबसाइट www.iindalphoto.com और स्टॉक एक्सवेंजों की वेबसाइटें अर्थात www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी तपलब्ध होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग की सचनाएं

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 5 सितंबर, 2024

कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम आयोजित करने और ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकत एजेंसी के रूप में लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएँ ली हैं। रिमोट ई—वोटिंग अवधि गंगलवार 24 सितंबर, 2024 को प्रात: 09:00 बजे से शुरू होगी और गुरुवार 26 सितंबर, 2024 को सांय: 05:00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के पात्र शेयरधारक, जो भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर धारक हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएमा, यानी 26 सितंबर, 2024 को सांय: 05:00 बजे के बाद वीटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों को भी उपलब्ध कराई जाएगी जो एजीएम में भाग लेंगे और जिन्होंने पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल दिया है, वे वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दुबारा अपना वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता

निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 है। कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस मेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट~ऑफ तिथि तक शेयर धारक है, यह अपना वोट ळालने के लिए enotices@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर या टेलीफोन. 022 — 4918 6000 पर संपर्क कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि शेयरधारकों / सदस्यों के ई—वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो वे enotices@linkintime.co.in पर ईमेल भेज सकते हैं या टेलीफोन: 022 – 4918 6000 पर संपर्क कर सकते हैं । लॉगिन आईडी और पा^{सवर्ड} प्राप्त करने खाता बंदी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के लागू नियमों और विनियम 42 के अनुसार यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बहियां एजीएम के लिए शनिवार, 21 सितंबर, 2024 से शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 तक, दोनों दिन शामिल हैं, बंद रहेंगी। निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

कृते जिंदल फोटो लिमिटेड रस्ता/-प्रीति सिंघल कंपनी सचिव

जिन सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग के मध्यम से अपना मतदान कर दिया है. वे वीडिय कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों ('ओएवीएम') की सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग ले

सुविधा सदस्यों को उपलब्ध कराई गयी है।

सकते हैं, किंतु वे वार्षिक आम बैठक के दौरान : उपलब्ध ई-बोटिंग सुविधा के माध्यम से पून: मतदान करने के हकदार

किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर एक बार अपना मतदान करने के परचात, बाद में उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। दरस्थ ई-बोटिंग, वार्षिक आम बैठक में जुड़नें और वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-बोटिंग से संबंधित विस्तृत विवरण 68वीं वार्षिक आम बैठक की सुधना में दिए गए हैं।

भी प्रवीन रस्तोगी. मैनेजिंग पार्टनर मैसर्स प्रवीन रस्तोगी एंड को. (सीओपी नंबर 26582) को संपर्ण ई-वोटिंग प्रक्रिया की

उचित एवं पारदर्शी तरीके से संवीक्षा के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है। सदस्यों को मताधिकार, मुरुवार, 19 सितम्बर, 2024 (अतिम तिथि) पर कंपनी की पूर्ण भुगतान इकिवटी शेयर पूंजी उनके पास इक्विटी शेयर के अनुपात में होंगे। जिस व्यक्ति का नाम अंतिम तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथव

डिपोजिटीज द्वारा रखे गए लामावित मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही एजीएम में माग लेने, दरस्थ ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा लेने का हकदार होगा। जो व्यक्ति अंतिम विधि को सदस्य नहीं रहता है वह इस सुबना को केवल जानकारी के उद्देश्य से माने। जो व्यक्ति ६८वी एजीएम की सूचना के इलेक्ट्रानिक रूप से प्रेषण की तिथि के पश्चात शंधर प्राप्त करता है और कंपनी क

सदस्य बनता है और अंतिम तिथि को शेयर रखता है, वह 68वीं एजीएम की सूचना में उल्लेख अनुसार अनुदेशों का पालर करते हुए अथवा evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज कर लॉगईन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता हैं। बदि आपने कंपनी / डीपी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है तो आप ई-वोटिंग हेत् लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए कृपमा निम्नोक्त अनुदेशों का पालन करें

कृपया फोलियो नंबर, शेयर धारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की रकेन कॉपी (सामने और पीछे), पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्केन की गई प्रति आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्केन की गई प्रति अथवा पर्त के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज जैसे आवश्यक विवरण ई-मेल के माध्यम से कंपनी (cs@stclimited.co.in) / आरटीए (admin@mcsregistrars.com) ई-मेल आईडी प

कृपया डीमेट खाता विवरण (सीडीएसएल का 18 अंकों का लागार्थी आईडी अथवा एनएसडीएल का 18 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाईट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरणी की प्रति आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति अथवा पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज कंपनी (cs@stclimited.co.in) / आरटीए (admin@mcsregistrars.com) इं-मेल आईड

के विनियम 42 के अनुसरण में, सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण बहियाँ शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 से शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 (दोनों दिन शामिल) तक ६८वीं एजीएम के उद्देश्य हेतू बंद रहेंगे। वोटिंग का परिणाम एजीएम के समापन से 2 कार्य दिवस के अंदर घोषित किया जाएगा और इस प्रकार घोषित किया

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियम

गया परिणाम समिकित संवीक्षक रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेवसाइट www.stclimited.co.in) और एनएसडीएर की वेवसाइट (www.nsdl.co.in) पर उपलब्ध कराई जाएगी।

यदि आयको एजीएम में शामिल होने में तथा ई-वोटिंग प्रणाली के द्वारा ई-वोटिंग करने के संबंध में कोई प्रश्न य समस्या है, तो आप www.evoting.nsdl.com पर सहायता खंड के तहत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों ("FAQs") देखा सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हान्ने, यरिष्ठ प्रबंधक (हेल्पलाइन न: 022-48867000 evoling@nsdl.com) से संपर्क कर सकते हैं।

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

विपिन त्रिपाठी

कंपनी सचिव

दिनांक : 05.09.2024 स्थान : नई दिल्ली

www.readwhere.com